



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2004 (अग्रहायण 6, 1926)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2004 (AGRAHAYANA 6, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400008, दिनांक 5 नवम्बर 2004

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसरण में सितम्बर 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400008 को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग 'ख' में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"					
प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
बीसी 14074 जीपीएच	रु. 50,000/-	शोभना महेश्वर खरे चारुशीला अजीत शेते	मुंबई, भायखला सर्कल 10% राहत बंधपत्र 1995 5-9-1998	शोभना महेश्वर खरे चारुशीला अजीत शेते	06.25.85 21-2-2004
सीए 001535 (जीपीसी)	रु. 30,000/-	डॉ. दीपक कुमार घोष प्रेमा घोष शतरुपा घोष	कोलकाता सर्कल 9% राहत बंध 1999 -	डॉ. दीपक कुमार घोष प्रेमा घोष शतरुपा घोष	फाइल सं. आई 2556 महाप्रबंधक का दिनांक 14.9.2004 का आदेश एलसीओ सं. 46/04.05 दिनांक 4.10.2004
सीए 001311 (जीपीएनसी)	रु. 2,00,000/-	सूरत कुमार दास (मृत) सूस्मिता दास	10% राहत बंधपत्र 1995 01.01.1997 से 20.8.2001	सूस्मिता दास	फाइल सं. आई 2555 महाप्रबंधक का दिनांक 14.9.2004 का आदेश एलसीओ सं. 47/04.05 दिनांक 4.10.2004
बी.वाई.एस. जे.एल. 000189	591 ग्राम	राजेन्द्र कुमार औसवाल	नागपुर सर्कल स्वर्ण बंध-1993 1998 परिपक्वता पर देय	राजेन्द्र कुमार औसवाल	उप महाप्रबंधक के 15.10.2004 के आदेशानुसार
सूची "ख"					
मुंबई (फोर्ट) सर्कल नेशनल डिफेन्स गौल्ड बाण्ड 1980 "बी" सिरीज					
बी.वाई. 014051	826 ग्राम स्वर्ण	यशवंत एन. शाह (मृत)	10वां साल	राजेन्द्र वाई. शाह	महाप्रबंधक के दिनांक 5.8.2004 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं. 77 दिनांक 6.8.2004
बी.वाई. 014052	125 ग्राम स्वर्ण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
बी.वाई. 419320	रु. 4,000/-	रनजीत जे. पी. ठक्कर	3% कनवर्सन ऋण 1946 प्रतिभूति पर 59वें अर्ध वर्षीय तक ब्याज दिया गया है	रनजीत जे. पी. ठक्कर	महाप्रबंधक के दिनांक 16.7.2004 के आदेश तथा केन्द्रीय कार्यालय डायरी संख्या 45 दिनांक 17.7.2004
कानपुर सर्कल 10% राहत पत्र 1995 (असंचयी)					
के. एन. 001323	रु. 3,00,000/-	राजेन्द्रनाथ मदन एवं वीरा हुसैन (या उत्तर- जीवी) (राजेन्द्र नाथ मदन-मृत)	17.01.1998	वीरा हुसैन (उत्तरजीवी)	महाप्रबंधक का आदेश दिनांक 10.7.2004 (डायरी सं. आई. आर. 142/80 दिनांक 19.7.04)
पी.टी.-000086 जी.पी.एन.सी	रु. 2,27,000/-	सुरेश चन्द्र रे	पटना सर्कल 10% राहत बंधपत्र 1995 16.03.1996	श्रीमती असोका रे	17.03.2004
डी.एच. 001780	रु. 25,000/-	बी.एम. सक्सेना	नई दिल्ली सर्कल 9% राहत बाण्ड 1999 -	बी.एम. सक्सेना	पीडीओ/डीटी/एल.एन./3/2004 दिनांक 02.08.2004

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 28 अक्टूबर 2004

एसबीडी क्र. 6/2004--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री हरीश चंडोक के स्थान पर श्री सुधीर मेहता, 405 एडी, विजयनगर, स्कीम नं. 74, इन्दौर-452010 (म. प्र.) को स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के निदेशक पद पर दिनांक 1 नवम्बर, 2004 से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए नामित करता है।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली-110002, दिनांक अक्टूबर 2004

मिसिल सं. 1-10/2004 (सीपीपी-II)--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 (1956 का 3) धारा 22 की उपधारा 3 एवं दिसम्बर, 1985 तक संशोधित और राजपत्र की अधिसूचना सं. 1-52/97 (सीपीपी-II) दिनांक 31-01-2004 के सिलसिले में नीचे दी गई अतिरिक्त डिग्रियों को उक्त धारा में उल्लिखित किया है :--

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. एम. एस.सी. बी.एड. | --5 साल का एकीकृत पाठ्यक्रम |
| 2. बी.ए. एल.एल.बी. | --5 साल का एकीकृत पाठ्यक्रम |

प्रो. वेद प्रकाश
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai-400008, the 05th November 2004

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990], the following list of securities lost etc, in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended September 2004 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai-400008.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and List "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Mumbai, Byculla Circle 10% Relief Bond 1995					
BC 014074 (GPH)	Rs. 50,000/-	Shobhana Maheshwar Khare and Charusheela Ajit Shete	5.9.1998	Shobhana Maheshwar Khare and Charusheela Ajit Shete	06.25.85 21.2.04
Kolkata Circle 9% Relief Bond 1999					
CA 001535 (GPCum)	Rs. 30,000/-	Dr. Dipak Kumar Ghosh Mrs. Prema Ghosh Miss Satarupa Ghosh	—	Dr. Dipak Kumar Ghosh Mrs. Prema Ghosh Miss Satarupa Ghosh	File No. I-2556 GM's Order dated 14.9.2004 Dy. No. LCO-46/04-05 dated 4.10.2004
10% Relief Bond 1995					
CA 001311 GP-NC	Rs. 2,00,000/-	Surat Kumar Das (Deceased) and Susmita Das	01.01.1997 to 20.8.2001	Susmita Das	File No. I. 2555 GM's Order dated 14.9.2004 Dy. No. LCO-47/04-05 dated 4.10.2004
Nagpur Circle Gold Bond 1993					
BY SH 000189	591 Grams Gold	Rajendra Kumar Oswal	Payable on Maturity in 1998	Rajendra Kumar Oswal	Dy. General Manager's Order dated 15.10.04
List "B" New Delhi Circle 9% Relief Bond 1999					
DH 001780	Rs. 25,000/-	V. M. Saksena	—	V. M. Saksena	PDO/DT/LN-3/2004 dated 2.8.2004
Patna Circle 10% Relief Bond 1995					
PT-000086 GPN NC	Rs. 2,27,000/-	Suresh Chandra Ray	16.3.1996	Smt. Asoka Ray	17.3.2004
Mumbai (Fort) Circle National Defence Gold Bond 1980 (B Series)					
BY 014051	826 Grams Gold	Yashwant N. Shah (Deceased)	10th Annual	Rajendra Y. Shah	GM's Order dated 5.8.2004, C.O. Diary No. 77 dated 6.8.2004
BY 01452	125 Grams Gold	-do-	-do-	-do-	-do-
3% Conversion Loan 1946					
BY 419320	Rs. 4000/-	Ranjit J.P. Thakkar	Interest paid for 59 half years	Ranjit J. P. Thakkar	G. M.s order dated 16.7.2004 C.O. Diary No. 45 dated 17.7.2004
KANPUR CIRCLE 10% Relief Bond 1995 (NC)					
KN 001323	Rs. 3,00,000/-	Rejendra Nath Madan (expired) and Veera Hussain (E or S)	17.1.1998	Veera Hussain (Survivor)	GM's order dated 10.7.2004 Dy. No. HR-142/80 dated 19.7.2004

A. S. MOHINANI
 Asstt. Manager

**STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP**

Mumbai, the 28th October 2004

SBD. No. 6/2004—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of Sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India nominated Shri Sudhir Mehta, 406 AD, Vijay Nagar Scheme No. 74, Indore-452010 (M.P.), as a Director on the Board of Directors of State Bank of Indore with effect from 1st November 2004 for a period of three years in place of Shri Harish Chandhok.

A. K. PURWAR
Chairman

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110002, October 2004

No. F.1-10/2004 (CPP-II)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 22 of the UGC Act, 1956 (3 of 1956) as modified upto Dec. 1985 and in continuation of Gazette Notification No. F.1-52/97 (CPP-II) dated 31.01.2004, the University Grants Commission with the approval of the Central Government hereby specifies the following additional degrees for the purposes of the said Section :—

1. M.Sc. B.Ed. — 5 year integrated course
2. B.A. LL.B. — 5 year integrated course

Prof. M. P. PRAKASH
Secy.